





# SBI CLERK 2022



**REASONING**

**LIVE TEST**



11:30 AM

**BY SHIPRA MAHENDRAS**



# UPCOMING ONLINE BATCHES

## May 2022

**04 May 2022**

05:30 PM to 07:30 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

10:30 AM to 12:30 PM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

**11 May 2022**

10:30 AM to 12:30 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

01:00 PM to 03:00 PM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

04:15 PM to 06:15 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

**ENGLISH & BENGALI**

**18 May 2022**

07:30 PM to 09:30 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

05:30 PM to 07:30 PM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

**25 May 2022**

03:00 PM to 05:00 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

08:00 AM to 10:00 AM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

# SBI CLERK 2022



Mohit.. 1 day ago

Thank-you Madam, for this Amazing Class session of today's.. 🙏😊

And

My answer for today's Homework is like-

1). Only I follows....

[Read more](#)

👍 🗨️ REPLY



Rahul Bhakat 8 hours ago

Homework -

D - 36

A - 29...

[Read more](#)

👍 🗨️ REPLY



debasish chakraborty 1 day ago

Homework :

1. Only 1

2.

D-36...

[Read more](#)

👍 🗨️ REPLY



shubhangi mishra 57 minutes ago

H w ans. Syllogism - only 1 follow  
Puzzle

D - 36

A-29...

[Read more](#)

👍 🗨️ REPLY



Nadeem 1 day ago

🎯 Homework Answers 🗨️

🌐 Syllogism 🌐

🎯 Ans :- Only 1 Follows

[Read more](#)

👍 🗨️ REPLY



Sonam Pundir 4 hours ago

Hw. 1) only 1 follow

2). Box. Ball

D. 36

A. 29...

[Read more](#)

👍 🗨️ REPLY



Rahul Bhakat 8 hours ago

Homework

50) Only 1 following.

👍 🗨️ REPLY



## 50) Statements:

Some Bus is Lorry

No Lorry is Van

Some Van is Car

No Car is Auto

## Conclusions:

I)Some Car being Lorry is a Possibility

II)Some Lorry is Auto







# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



नौ डिब्बे A, B, C, D, E, F, G, H, और I एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही में हों गण। प्रत्येक बॉक्स में अलग-अलग संख्या में गेंदें हैं यानी 25, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 42 और 45 और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों।

। और बॉक्स के बीच चार बॉक्स हैं जो 45 गेंदें हैं। I के ऊपर चार से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। G और 45 गेंदों वाले बॉक्स के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स A में गेंदों की संख्या एक अभाज्य संख्या है। जिस डिब्बे में 42 गेंदें हैं, वह डिब्बा B के ठीक ऊपर रखा गया है। डिब्बा H, डिब्बा E के ठीक ऊपर रखा है जिसमें 33 गेंदें हैं। बॉक्स मेरे पास न तो 25 गेंदें हैं और न ही 36 गेंदें। A और C के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं जिनमें 28 गेंदें हैं। डिब्बा C को G के ठीक ऊपर रखा गया है। डिब्बा D को डिब्बा A के नीचे नहीं रखा गया है। डिब्बा D में 25 गेंदें नहीं हैं। G और F के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं जिनमें 32 गेंदें हैं।

Nine boxes A, B, C, D, E, F, G, H, and I are kept above one another but not necessarily in the same order. Each of the boxes have different number of balls i.e. 25, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 42, and 45 and are not necessarily in the same order.

There are four boxes between I and the box which has 45 balls. More than four boxes are kept above I. There are two boxes kept between G and the box which has 45 balls. The number of balls in box A is a prime number. The box which has 42 balls is kept immediately above box B. The Box H is kept immediately above the box E which has 33 balls. The box I have neither 25 balls nor 36 balls. There are two boxes kept between A and C which has 28 balls. The box C is kept immediately above G. The box D is not kept below the box A. The box D does not have 25 balls. There are two boxes kept between G and F which has 32 balls.

2:00

# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM

Nine boxes A, B, C, D, E, F, G, H, and I are kept above one another but not necessarily in the same order. Each of the boxes have different number of balls i.e. 25, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 42, and 45 and are not necessarily in the same order.

There are four boxes between I and the box which has 45 balls. More than four boxes are kept above I. There are two boxes kept between G and the box which has 45 balls. The number of balls in box A is a prime number. The box which has 42 balls is kept immediately above box B. The Box H is kept immediately above the box E which has 33 balls. The box I have neither 25 balls nor 36 balls. There are two boxes kept between A and C which has 28 balls. The box C is kept immediately above G. The box D is not kept below the box A. The box D does not have 25 balls. There are two boxes kept between G and F which has 32 balls.



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



55) How many boxes are kept between B and the box which has 33 balls? B और 33 गेंदों वाले डिब्बे के मध्य कितने डिब्बे रखे गए हैं?

- a) None
- b) One
- c) Two
- d) Three
- e) None of these

D	36
A	29
H	45
E	33
C	28
G	42
B	25
I	39
F	32

53) Which of the following box is kept immediately above C?  
निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बा C के ठीक ऊपर रखा गया है?

- a) H
- b) E
- c) G
- d) B
- e) None of these

54) How many balls are there in the box I?  
बॉक्स I में कितनी गेंदें हैं?

- a) 25
- b) 42
- c) 28
- d) 32
- e) None of these





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM

D	36
A	29
H	45
E	33
C	28
G	42
B	25
I	39
F	32

56) If F is related to 42 and G is related to 45 in a certain way, then in the same way E is related to which of the following?

यदि F, 42 से संबंधित है और G, 45 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, तो उसी प्रकार E, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

- a)36
- b)28
- c)39
- d)29
- e)None of these

57) Which one of the following combination is true?

निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य है?

- a)I - 42
- b)C - 29
- c)H - 36
- d)F - 35
- e)B - 25

30



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



62) Statements:

$$M = N > O \leq P; Q \leq R < N > S$$

Conclusions:

I).  $N < Q$

II).  $M > Q$

60) Statements:

$$I < J > K < L; M > K = N \leq O$$

Conclusions:

I).  $J > O$

II).  $M > L$

61) Statements:

$$X < Y = Z \geq A; U < V \geq Y = W$$

Conclusions:

I).  $W > A$

II).  $A = W$





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



- “School students are playing” is coded as “mj uv de xy”
- “Some teachers are playing” is coded as “wx kl de xy”
- “Students enjoying the holidays” is coded as “pq no uv gh”
- “Teachers enjoying school days” is coded as “fj mj kl gh”
- “School holidays are completed” is coded as “st mj de pq”



63) What is the code for “Some” in the given coded language?

- a)kl
- b)de
- c)wx
- d)xy
- e)None of these

64) What is the code for “Completed” in the given coded language?

- a)rs
- b)st
- c)pq
- d)fj
- e)None of these



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



1:30

- “School students are playing” is coded as “mj uv de xy”
- “Some teachers are playing” is coded as “wx kl de xy”
- “Students enjoying the holidays” is coded as “pq no uv gh”
- “Teachers enjoying school days” is coded as “fj mj kl gh”
- “School holidays are completed” is coded as “st mj de pq”

67) What is the code for “Enjoying summer holidays” in the given coded language?

- a)gh de pq
- b)kl pq gh
- c)gh bj pq
- d)gh pq fj
- e)None of these

65) Which of the following word represents the code “pq” in the given coded language?

- a)Holidays
- b)Students
- c)Enjoying
- d)Teachers
- e)None of these

66) Which of the following word represents the code “fj” in the given coded language?

- a)are
- b)School
- c)Students
- d)Days
- e)None of these



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM

79) If it is possible to make meaningful word with the second, fourth, fifth, sixth, ninth and tenth letters of the word "IMPEACHMENT" Which would be the second letter of the word from the left end? If more than one such word can be formed give X as the answer. If no such word can be formed, give Y as your answer.

यदि शब्द "IMPEACHMENT" के दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, नौवें और दसवें अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बायें छोर से शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में X दें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो अपना उत्तर Y दें।

- a)E
- b)X
- c)Y
- d)A
- e)N

30



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



80) How many such pairs of letters are there in the word "ENCLAVE" which has as many letters between them in the word as in alphabetical series  
शब्द "ENCLAVE" में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि शब्द में वर्णानुक्रम में हैं।

- a)1
- b)2
- c)4
- d)None
- e)None of these

30



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



आठ व्यक्ति J, L, N, P, R, V, X, और Z नौ सीटों वाली पंक्ति में बैठे हैं और एक खाली है। उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। उनमें से प्रत्येक अलग-अलग कंपनी अर्थात Amazon, Apple, Yahoo, Wink, Ind, Google, Dapper और Adobe में काम करता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो।

L उस व्यक्ति के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है जो डैपर में काम करता है और उनमें से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। वह व्यक्ति जो सेब में कार्य करता है, J के ठीक बायें बैठा है, जो अमेज़न में कार्य करता है। रिक्त स्थान और विक में कार्य करने वाले व्यक्ति के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। X, N के दायें से चौथे स्थान पर बैठा है, जो विक में कार्य करता है। N किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। जो बीच में बैठता है वह एडोब में काम करता है। न तो N और न ही X, L का निकटतम पड़ोसी है। Yahoo में कार्य करने वाला व्यक्ति, Google में कार्य करने वाले व्यक्ति के ठीक बायें बैठा है, जो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। P, N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V और Z के मध्य तीन व्यक्ति बैठे हैं, जो वास्तव में कार्य करता है। Z, V के बायें बैठा है।

Eight persons J, L, N, P, R, V, X, and Z are sitting in a nine seated row and one is vacant. All of them are facing north. Each one of them works in different company i.e. Amazon, Apple, Yahoo, Wink, Indeed, Google, Dapper, and Adobe but not necessarily in the same order.

L sits fourth to the left of the one who works in Dapper and neither of them sits at extreme ends. The one who works in apple sits immediate left of J, who works in Amazon. There are two persons sitting between vacant and the one who works in Wink. X sits fourth to the right of N, who works in Wink. N doesn't sit at any of the extreme ends. The one who sits in the middle works in adobe. Neither N nor X is an immediate neighbour of L. The one who works in Yahoo sits an immediate left of the one who works in Google who does not sit at any of the extreme ends. P is not an immediate neighbour of N. There are three persons sit between V and Z, who works in Indeed. Z sits left of V.



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM

Eight persons J, L, N, P, R, V, X, and Z are sitting in a nine seated row and one is vacant. All of them are facing north. Each one of them works in different company i.e. Amazon, Apple, Yahoo, Wink, Indeed, Google, Dapper, and Adobe but not necessarily in the same order.

L sits fourth to the left of the one who works in Dapper and neither of them sits at extreme ends. The one who works in apple sits immediate left of J, who works in Amazon. There are two persons sitting between vacant and the one who works in Wink. X sits fourth to the right of N, who works in Wink. N doesn't sit at any of the extreme ends. The one who sits in the middle works in adobe. Neither N nor X is an immediate neighbour of L. The one who works in Yahoo sits an immediate left of the one who works in Google who does not sit at any of the extreme ends. P is not an immediate neighbour of N. There are three persons sit between V and Z, who works in Indeed. Z sits left of V.





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM




70) How many persons are sitting between J and N? कितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं J और N?

- a)None
- b)One
- c)Two
- d)Three
- e)None of these

68) Who sits to an immediate left of the one who works in Google? Google में कार्य करने वाले व्यक्ति के ठीक बायें कौन बैठा है?

- a)Z
- b)N
- c)L
- d)P
- e)None of these



69) What is the position of the one who works in Apple with respect to P? P के सन्दर्भ में Apple में कार्य करने वाले व्यक्ति का स्थान क्या है?


- a)Second to the left
- b)Second to the right
- c)Immediate left
- d)Immediate right
- e)None of these





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



71) Who among the following persons are the immediate neighbours of vacant seat? निम्नलिखित में से कौन खाली सीट का निकटतम पड़ोसी है?

- a) J and the one who works in Apple
- b) P and the one who works in Google
- c) P and the one who works in Adobe
- d) X and the one who works in Dapper
- e) None of these

72) In which one of the following companies does R works?

निम्नलिखित में से किस कंपनी में R कार्य करता है?

- a) Google
- b) Indeed
- c) Apple
- d) Amazon
- e) None of these





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



73) How many pairs of letters are there in the word “SACRILEGIOUS” which has as many Letters between them in the word as in alphabetical series?

शब्द “SACRILEGIOUS” में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें उतने ही हैं शब्द में उनके बीच अक्षर जैसा कि वर्णानुक्रम में है?

- a)None
- b)One
- c)Two
- d)Three
- e)More than three

30



74) The position of how many numbers will remain unchanged if each of the numbers in the series "879235146" is arranged in ascending order?

यदि श्रृंखला "879235146" में से प्रत्येक संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

- a)None
- b)One
- c)Two
- d)Three
- e)More than three

30



75) If it is possible to make it only one meaningful word from the third, fourth, seventh and the last letter of the word 'HACKNEYED', then the last letter of the word is your answer. If no such word can be formed Z is your answer and if more than one word can be formed Y is your answer.

यदि शब्द 'HACKNEYED' के तीसरे, चौथे, सातवें और अंतिम अक्षर से इसे केवल एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो शब्द का अंतिम अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो Z आपका उत्तर है और यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो Y आपका उत्तर है।

- a)Z
- b)Y
- c)L
- d)G
- e)None of these

30



# SBI CLERK 2022

**•Live at 11:30 AM**



Study the following information carefully and answer the questions given below.

Letter	M	N	O	P	Q	I	K	L	S	E	G	H	V	W	A	Y
Digit / Symbol code	2	3	@	#	7	8	*	&	4	6	\$	<	9	1	T	>

- I) If the first and the last letters are vowels both are coded as the first letter code.
- II) If the first letter is vowel and the fourth letter is consonant both codes are interchanged.
- III) If the second letter is a consonant and the last letter is vowel both are coded as the last letter code

**76) What is the code for 'Y N W P O'?**

- a) '>> 1 # @'
- b) '> 3 1 # >'
- c) '>> 1 # >'
- d) '> @ 1 # @'
- e) None of these





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



Study the following information carefully and answer the questions given below.

Letter	M	N	O	P	Q	I	K	L	S	E	G	H	V	W	A	Y
Digit / Symbol code	2	3	@	#	7	8	*	&	4	6	\$	<	9	1	T	>

- I) If the first and the last letters are vowels both are coded as the first letter code.
- II) If the first letter is vowel and the fourth letter is consonant both codes are interchanged.
- III) If the second letter is a consonant and the last letter is vowel both are coded as the last letter code

77) What is the code for 'A M I K V'?

- a) 'T 2 8 \* 9'
- b) '\* 8 2 T 9'
- c) '\* 2 8 T 9'
- d) 'T 2 \* 9 8'
- e) None of these





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



Study the following information carefully and answer the questions given below.

Letter	M	N	O	P	Q	I	K	L	S	E	G	H	V	W	A	Y
Digit / Symbol code	2	3	@	#	7	8	*	&	4	6	\$	<	9	1	T	>

- I) If the first and the last letters are vowels both are coded as the first letter code.  
II) If the first letter is vowel and the fourth letter is consonant both codes are interchanged.  
III) If the second letter is a consonant and the last letter is vowel both are coded as the last letter code

78) What is the code for 'E I P A O'?

- a) '6 8 # T 6'
- b) '6 8 # T @'
- c) '1 @ # T 6'
- d) '@ 8 # @ \$'
- e) None of these

30



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



Study the following information carefully and answer the questions given below.

Letter	M	N	O	P	Q	I	K	L	S	E	G	H	V	W	A	Y
Digit / Symbol code	2	3	@	#	7	8	*	&	4	6	\$	<	9	1	T	>

- I) If the first and the last letters are vowels both are coded as the first letter code.  
II) If the first letter is vowel and the fourth letter is consonant both codes are interchanged.  
III) If the second letter is a consonant and the last letter is vowel both are coded as the last letter code

79) What is the code for 'A N H O S'?

- a) '4 3 < @ T'
- b) '@ 3 < @ T'
- c) 'T 3 < @ T'
- d) 'T 3 < @ 4'
- e) None of these

30





# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



Study the following information carefully and answer the questions given below.

Letter	M	N	O	P	Q	I	K	L	S	E	G	H	V	W	A	Y
Digit / Symbol code	2	3	@	#	7	8	*	&	4	6	\$	<	9	1	T	>

- I) If the first and the last letters are vowels both are coded as the first letter code.  
II) If the first letter is vowel and the fourth letter is consonant both codes are interchanged.  
III) If the second letter is a consonant and the last letter is vowel both are coded as the last letter code

80) What is the code for 'Q M W K I'?

- a) '7 2 1 \* 8'
- b) '7 8 1 \* 8'
- c) '7 1 8 \* 8'
- d) '7 1 2 \* 8'
- e) None of these

30



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



Eight persons Sushi, Suha, Srini, Suthir, Shaurya, Sam, Sugi and Subi are living in eight different floors of the building such that lowermost floor is numbered as 1 and the floor above 1 is numbered as 2 and so on, and the topmost floor is numbered as 8. All the above information is not necessarily in the same order.

Suha lives in 5th floor. Two persons lives between Suha and Subi. Shaurya lives just above Sushi. Two persons lives between Sushi and Sam. Sam lives in even number floor above Suha. Number of persons lives above Suthir is as same as number of persons lives below Sugi. Srini lives above Sugi.

आठ व्यक्ति सुशी, सुहा, श्रीनी, सुथिर, शौर्य, सैम, सुगी और सुबी इमारत के आठ अलग-अलग मंजिलों में इस तरह से रह रहे हैं कि सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और 1 से ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल 8 के रूप में क्रमांकित किया गया है। उपरोक्त सभी जानकारी एक ही क्रम में जरूरी नहीं है।

सुहा 5वीं मंजिल पर रहती है। सुहा और सुबी के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। शौर्य सुशी के ठीक ऊपर रहता है। सुशी और सैम के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। सैम सुहा के ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। सुथिर के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, सुगी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। सुगी के ऊपर रहती है।

2:00



Eight persons Sushi, Suha, Srini, Suthir, Shaurya, Sam, Sugi and Subi are living in eight different floors of the building such that lowermost floor is numbered as 1 and the floor above 1 is numbered as 2 and so on, and the topmost floor is numbered as 8. All the above information is not necessarily in the same order.

Suha lives in 5th floor. Two persons lives between Suha and Subi. Shaurya lives just above Sushi. Two persons lives between Sushi and Sam. Sam lives in even number floor above Suha. Number of persons lives above Suthir is as same as number of persons lives below Sugi. Srini lives above Sugi.



# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM



48. How many persons live between Srini and Subi? श्रीनि और सुबी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

- a) One
- b) Two
- c) Three
- d) Four
- e) None of these

Floors	Persons
8	Suthir
7	Srini
6	Sam
5	Suha
4	Shaurya
3	Sushi
2	Subi
1	Sugi

46. Who lives immediately above Subi? सुबी के ठीक ऊपर कौन रहता है?

- a) Shaurya
- b) Sushi
- c) Suha
- d) Sam
- e) None of these

47. What is the sum of Floor number of Srini and Sugi? श्रीनि और सुगी की मंजिल संख्या का योग क्या है?

- a) Seven
- b) Eleven
- c) Eight
- d) Six
- e) None of these

30

# SBI CLERK 2022

•Live at 11:30 AM

30

Floors	Persons
8	Suthir
7	Srini
6	Sam
5	Suha
4	Shaurya
3	Sushi
2	Subi
1	Sugi

49. Which of the following is correct? निम्न में से कौन सा सही है?

- I) Sam lives on 1st Floor
  - II) Suha Lives two floor above Shaurya
  - III) Srini lives just above Suthir
- a) Only I
  - b) Only I and II
  - c) Only III
  - d) Only II and III
  - e) None of the statement is correct

50. What is the floor number of Sugi and Suthir respectively?

क्रमशः सुगी और सुथिर की मंजिल संख्या क्या है?

- a) Six and Seven
- b) One and Eight
- c) even and Six
- d) Four and Eight
- e) None of these





# SBI CLERK 2022

• **Live** at 11:30 AM



